

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +4295
सोमवार, 22 मार्च, 2021/1 चैत्र, 1943 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

कुमारकोम को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करना

+4295. श्री थोमस चाजिकाइन:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने केरल के कुमारकोम सहित कुछ पर्यटक स्थलों को प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पर्यटन विभाग की अधिसूचना की प्रतिलिपि क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने कुमारकोम प्रमुख पर्यटक स्थल के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एजेंसी का नाम क्या है जिसे कार्य सौंपा गया है;
- (ग) क्या सरकार को कुमारकोम प्रमुख पर्यटन परियोजना की मसौदा रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार को कोट्टायम-कुमारकोम-चेरथली टूरिस्ट हाईवे और नहरों के विकास को परियोजना में शामिल करने का कोई प्रस्ताव मिला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ.) इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है; और
- (च) क्या सरकार ने प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए कोई धनराशि निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (च): पर्यटन मंत्रालय ने एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए देश में कुमारकोम (केरल) सहित अभिज्ञात किए गए उन्नीस प्रतिष्ठित गंतव्यों के विकास के लिए "प्रतिष्ठित पर्यटक गंतव्यों की विकास योजना" तैयार की है। यह योजना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। प्रतिष्ठित पर्यटक गंतव्य के रूप में कुमारकोम के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। तथापि कुमारकोम के विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय द्वारा मैसर्स आई एन आई डिजाइन स्टूडियो- जॉन्स लांग लेजली प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संघ के माध्यम से मास्टर प्लान का मसौदा तैयार किया गया है और हितधारकों के साथ उस पर परामर्श चल रहा है।

क्योंकि यह योजना अनुमोदित नहीं है इसलिए परियोजनाओं के विकास और इस संबंध में स्वीकृत की गई निधियों के बारे में किसी विवरण को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 को आयोजित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में 19 प्रतिष्ठित पर्यटक गंतव्यों के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक की अवधि के लिए 5109 करोड़ रुपए की राशि की संस्तुति की गई है।
